



Goodyear India Limited

Corporate Office :

1st Floor, ABW Elegance Tower

Plot No. 8, Commercial Centre

Jasola, New Delhi - 110 025

email: gyi_info@goodyear.com

October 23, 2024

To
The Dept. of Corporate Services
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001

Scrip Code: 500168
ISIN: INE533A01012

Sub: Intimation of publication of Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2024

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copy of Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2024, approved by the Board of Directors at their meeting held on Tuesday, October 22, 2024 and published in the following newspapers:

- The Financial Express (National English language daily newspaper) on October 23, 2024; and
- Jansatta (Regional language daily newspaper) on October 23, 2024.

We request you to take the above information on record.

Thanking you.

Yours sincerely,
For **Goodyear India Limited**

Anup Karnwal
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above

Telephone : +91 11 47472727
Telefax : +91 11 47472715



website: www.goodyear.co.in

No contract is valid unless signed by a duly authorised officer of the company.

Regd. Office : Mathura Road, Ballabgarh, (Dist. Faridabad) - 121004, Haryana

CIN : L25111HR1961PLC008578

NORTHERN RAILWAY
CORRIGENDUM
Ref: i) Tender Notice No. 54/2024-2025 dated 20.09.2024
ii) Tender No. 15245194 due on 13.11.2024.
01. In reference to above tender, the due date has been extended from 22.10.2024 to 13.11.2024. All other terms & conditions remain unchanged.
The corrigendum has been published on website www.reps.gov.in. 3269/2024
SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

POSSESSION NOTICE
Whereas, the authorized officer of Jana Small Finance Bank Limited (Formerly known as Janalakshmi Financial Services Limited), under the Securitization And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued demand notices to the borrower(s)/ Co-borrower(s) calling upon the borrowers to repay the amount mentioned against the respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices within 60 days from the date of receipt of the said notices, along with future interest as applicable incidental expenses, costs, charges etc. incurred till the date of payment and/or realisation.
Sr. No. Loan No. Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ Mortgagee 13(2) Notice Date/ Outstanding Due (in Rs.) as on Date/ Time & Type of Possession
1 30418240000126 1) Mr. Puneet (Applicant), 2) Mrs. Madhu (Co-Applicant) 24.07.2024 Rs. 1,51,601/- (Rupees One Lakh Fifty One Thousand Six Hundred and One Only) as on 14.07.2024 21.10.2024 12:05 P.M. Symbolic Possession
Description of Secured Asset: All that piece and parcel of the Immovable Waka Majua Township, Plot/ Barrack No.10, Area Measuring 26 Sq.yards, Tehsil and District Faridabad, Haryana. Owned by Mrs. Madhu Kalia, W/o. Mr. Rajender Kumar. Bounded as: East: Govt. Property, West: Remaining Part of Barrack No.10, North: Remaining Part of Barrack No.10, South: Rasta.
Whereas, the Borrowers/ Co-borrowers/ Guarantors/ Mortgagees, mentioned herein above have failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the Borrowers mentioned herein above in particular and to the Public in general that the authorized officer of Jana Small Finance Bank Limited has taken possession of the properties/ secured assets described herein above in exercise of powers conferred on him under section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the dates mentioned above. The Borrowers/ Co-borrowers/ Guarantors/ Mortgagees, mentioned herein above in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid properties/ Secured Assets and any dealings with the said properties/ Secured Assets will be subject to the charge of Jana Small Finance Bank Limited.
Place: Delhi NCR Sd/- Authorised Officer
Date: 23.10.2024 For. Jana Small Finance Bank Limited

JANA SMALL FINANCE BANK
Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071. Branch Office: 16/12, 2nd Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005.

Bharat Rasayan Limited
Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi - 110008.
CIN: L24119DL1989PLC036264
Email: investors.brl@bharatgroup.co.in Website: www.bharatgroup.co.in
NOTICE is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 12, 2024, inter-alia, to consider and approve the standalone & consolidated unaudited financial results of the Company for the quarter and six months ended September 30, 2024.
The said Notice may be accessed on the Company's website at <https://www.bharatgroup.co.in> and may also be accessed on the Listed Stock Exchange website at <https://www.nseindia.com>.
Further, the Trading Window of the Company shall remain closed from October 22, 2024 to November 14, 2024 (both days inclusive) for the specified persons in terms of Code of Conduct of the Company to regulate, monitor and report of trading in Company's securities by insiders framed under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.
For BHARAT RASAYAN LIMITED (NIKITA CHADHA) Company Secretary
New Delhi, October 22, 2024.

IDBI BANK IDBI BANK LTD
NFC Branch, Delhi
NOTICE FOR BREAK OPEN OF LOCKER
This is to inform you that the locker holders of our NFC Branch relating to the following locker accounts have failed and neglected to pay the prescribed locker rent for a long time in spite of our various notices and demands made to them. As per the Terms and conditions agreed to by the locker holder, the bank will be at liberty to break open the said lockers in the event of non-payment of rent. Accordingly, it is proposed to break open the said locker on 22/10/2024 by serving the formalities and the respective locker holders are advised to approach the branch before the due date and settle the dues to avoid action. The charges for break open would be borne by the renters and the bank reserves the right to take legal action for recovery of the same along with rent arrears / other charges etc..
No. Locker No. Due from Name and Address
1 S1/9 01/04/2021 Hussain Ahmad / Allah Baksha 1-33/13 A, KH 325/290, Batla House, Okhla, Delhi-110025
Date: 22.10.2024 Sd/-
Place: Delhi Authorized Signatory NFC Branch

Form No. 3 [See Regulation-15 (1)(a)] / 16(3)
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)
1st Floor SCO 33-34-35 Sector-17 A, Chandigarh (Additional Space allotted on 3rd & 4th Floor also)
Case No.: OA/199/2024
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No.: 23948
INDIAN OVERSEAS BANK VS JAI MAJ TOOLS
To,
(1) M/S JAI MAJ TOOLS THROUGH ITS PROPRIETOR SHRI ANIL KUMAR CHOPRA RESIDENT OF PLOT NO. 20, SHIV COLONY, SECTOR 22 NIT FARIDABAD HARYANA - 121005.
(2) SHRI ANIL KUMAR CHOPRA SON OF LATESHRI S.I. CHOPRA PROPRIETOR M/S JAI MAJ TOOLS RESIDENT OF PLOT NO. 20, SHIV COLONY, SECTOR 22 NIT FARIDABAD HARYANA - 121005.
SUMMONS
WHEREAS, OA/199/2024 was listed before Hon'ble Presiding Officer/ Registrar on 27/09/2024.
WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 6363328.90/- (application along with copies of documents etc. annexed).
In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-
(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;
(ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;
(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;
(iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/ or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;
(v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.
You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 26/10/2024 at 10:30 A.M, failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 07/10/2024.
Signature of the Officer Authorised to issue summons.
Note: Strike out whichever is not applicable.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
Dehradun Zonal Office, 1072, Ashirwad Tower, 2nd Floor, Ballapur Road, Sunder Vihar, Chakrata Road, Dehradun - 248001
Contact No. 8295953535
Empanelment of Architects and Contractors
Bank of Maharashtra, a leading nationalized bank invites application for empanelment of architects and Contractors (for Civil / Interior / Furnishing / Electrical Works and Air Condition Works) in Bank of Maharashtra branches & its offices spread across Dehradun Zone in Uttarakhand. All other details including application forms can be obtained from our office or download from the Bank's website www.bankofmaharashtra.in/tender from 23.10.2024 to 05.11.2024.
The Bank reserves the right to accept or reject any or all the applications without assigning any reason whatsoever.
Last Date of submission of application form is 05.11.2024 by 5.00 pm. Application without requisite fees (Rs. 1,000/-) or application which are incomplete / unsigned will not be accepted.
Application to be submitted to: Bank of Maharashtra, Dehradun Zonal Office, 1072, Ashirwad Tower, 2nd Floor, Ballapur, Chakrata Road, Dehradun - 248001. For more information kindly visit our website bankofmaharashtra.in
Zonal Manager, Bank of Maharashtra, Dehradun Zone
Date: 22.10.2024

ASHIANA HOUSING LTD.
CIN: L70109WB1986PLC040864
Regd. Off. : 5F, Everest, 46/C, Chouringhee Road, Kolkata - 700 071
Head Off. : Unit No. 4 & 5, IInd Floor, Southern Park, Plot No. D-2 Saket District Centre, New Delhi -110 017
Website: www.ashianahousing.com
Email: investorrelations@ashianahousing.com
PUBLIC NOTICE
This is to inform to all concerned that the company has received request along with necessary indemnity bond and affidavit from shareholder(s) of the company to issue duplicate share certificate in lieu of the lost share certificate, details of which is given herein below:
Sl. No. Name of Regd. Shareholder L.F. No. Share Certificate No. Distinctive No. No. of Shares
1. Maya Sanyal j/w Chitra Sanyal 0010404 2049 3817251-3820750 3,500
Since the company is in the process of issuing duplicate share certificate, any person who has objection on such issue, may lodge his objection within 15 days from the date of appearance of this advertisement to the company or its Registrar M/s. Beatal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beatal House, 99, Madangiri, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi-110 062.
For Ashiana Housing Ltd. Sd/- Nitin Sharma (Company Secretary)
Place : New Delhi Date : 22nd October 2024

IDBI BANK REGIONAL OFFICE NEHRU COLONY, DEHRADUN PIN- 248001 UTTARAKHAND
POSSESSION NOTICE
[Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]
Whereas The undersigned being the authorised officer of IDBI Bank Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The Bank issued demand notice to the following borrower/Co-borrower/Guarantor/Mortgagee on the date mentioned against their name calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice. Since they failed to repay the amount, notice is hereby given to them and to the public in general that the undersigned has taken the possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against the name of the borrower. The borrower/Co-borrower/Guarantor/ Mortgagee/ in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealing with the property will be subject to the charge of IDBI Bank Limited for the amount given against their names with future interest charges thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of respect of time available, to redeem the secured assets.
S. No. Name of Borrower Description of the Immovable Property Out-standing Amount Date of Demand Notice
01 Shri Jagram Singh All that piece and parcel of land admeasuring 0.025 hectare on the land bearing Survey no. 4592 situated at Village Dewar Khadora, Gopeshwar, District- Chamoli-246401, in the state of Uttarakhand together with undivided share in the land and all the structures thereon and bound as follows- On the East by: Land of Prem Singh, On the West by: Land of Shri Barthwal, On the North by: Land of Shri Hayat Singh, On the South by: Land of Shri Hayat Singh, together with all and singular the structures and erections thereon, both present and future. Rs.69,19,739.01 (Rupees Six Lakh Nineteen Thousand Seven Hundred Thirty Nine and Paise One only) and interest thereon from 10.01.2024 and expenses till the closure of loan. 09.07.2024 17.10.2024
Date : 23.10.2024 Place : Dehradun Authorised Officer

GOODYEAR
GOODYEAR INDIA LIMITED
CIN: L25111HR1961PLC008578
REGISTERED OFFICE: MATHURA ROAD, BALLABGARH (DIST. FARIDABAD) - 121004, HARYANA
Telephone: 0129-6611000 Fax: 0129-2305310, E-mail: gyl_info@goodyear.com, Website: www.goodyear.co.in
EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024 (Rs. In Lakhs)

Particulars	Current 3 months ended (30/09/2024)		Preceding 3 months ended (30/06/2024)		Corresponding 3 months ended (30/09/2023)		Year to date figures for current period ended (6 Months) (30/09/2024)		Year to date figures for Corresponding period ended (6 Months) (30/09/2023)		Year to date figures for previous year ended (12 Months) (31/03/2024)	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1. Total income from operations	68,710	69,531	69,453	138,241	141,789	256,868						
2. Net Profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	2,115	3,345	5,071	5,460	10,330	12,803						
3. Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,115	3,345	5,071	5,460	10,330	12,803						
4. Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,574	2,503	3,794	4,077	7,720	9,485						
5. Total Comprehensive Income/(loss) for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (loss) (after tax))	1,546	2,524	3,823	4,070	7,786	9,674						
6. Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 10/- per share)	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307						
7. Reserve (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year.						58,274						
8. Earnings/(loss) Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised):												
(a) Basic (Rs.)	6.82	10.85	16.45	17.67	33.47	41.12						
(b) Diluted (Rs.)	6.82	10.85	16.45	17.67	33.47	41.12						

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of the Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2024 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the Standalone Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and also available on the Company's website i.e. www.goodyear.co.in/investor-relations.
2. The Statement has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS 34") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended.
3. The Company is engaged in the business of sales of automotive tyres, tubes and flaps. The Company sells tyres of its own brand "Goodyear". The Chief Operating Decision Maker (CODM), Managing Director, performs a detailed review of the operating results, thereby makes decisions about the allocation of resources among the various functions. The operating results of each of the functions are not considered individually by the CODM, the functions do not meet the requirements of Ind AS 108 for classification as an operating segment, hence there is only one operating segment namely, "Automotive tyres, tubes & flaps".
4. This Statement has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on October 22, 2024. The same have also been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors of the Company.
For GOODYEAR INDIA LIMITED
Sandeep Mahajan
Chairman and Managing Director
Place: Faridabad
Date: October 22, 2024

ILD INDIA LEASE DEVELOPMENT LIMITED
Regd Office: MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi - 110002
Phone: 011-41520070, Fax No.: 011-41503479
Website: www.indialease.com, E-mail: info@indialease.com
CIN: L74899DL1984PLC019218, GSTIN: 07AAACIO149R1ZB
NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING
Members of India Lease Development Limited are hereby informed that pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 and 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and various Circulars issued by MCA in this regard (recent Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) and other applicable laws, rules the company is seeking approval of members by Special Resolution for the appointment of Mrs Leena Tuteja (DIN: 10765107) as Non Executive Independent Director for a period of five years from September 17, 2024 to September 16, 2029 through Postal Ballot by voting through electronic means ("remote e-voting") only.
The dispatch of Notice of Postal Ballot to the Members has been completed on October 22, 2024 only by email to those Members whose email IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) and Depositories in compliance with MCA circulars and SEBI circulars and the same is available on the website of the Company <https://www.indialease.com/PostalBallot.html>, website of the BSE at www.bseindia.com and on website of CDSL at www.evotingindia.com
The company has appointed Anjali Yadav & Associates, practicing Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the remote e-voting process through Postal Ballot in a fair and transparent manner.
The company has engaged the services of CDSL to provide remote e-voting facility. The company has fixed Friday, October 18, 2024 as the "Cut Off date" to ascertain the eligibility of members to vote by remote e-voting. The remote e-voting facility will be available during the following period:-
Commencement of Remote e-voting Saturday, October 26, 2024 at 09:00 Hours IST
End of Remote e-voting Sunday, November 24, 2024 at 17:00 Hours IST
EVS/N 241016001
E-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on Sunday, November 24, 2024 and the e-voting module shall be disabled by CDSL and members will not be allowed to vote thereafter.
In case of any queries regarding the E-voting facility, Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under 'Help Section' or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Alternatively, the Members may also write an e-mail to the Company at info@indialease.com for any queries/ information.
The results of the Postal Ballot shall be announced within two working days and shall be uploaded on the website of the company and will be communicated to BSE and CDSL.
By Order of the Board
For India Lease Development Limited
Sd/- Rohit Madan
Manager, Company Secretary & CFO
ACS - 13636
Place: New Delhi
Date: October 22, 2024

HERO HOUSING FINANCE LIMITED
Contact Address: Building No. 7, 2nd Floor, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057
Regd. Office: 09, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057, Ph: 011 49267900, Toll Free No: 1800 212 8900, Email: customer.care@herohfi.com
Website: www.herohousingfinance.com CIN: U65193DL2016PR1020168
POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES)
(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Hero Housing Finance Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notices as mentioned below calling upon the borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.
The borrower, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower. In particular and the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules.
The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Hero Housing Finance Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date mentioned below.
The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets
Loan Account Name of Obligor(s) Date of Demand Notice/ Amount as per Demand Notice Date of Possession (Constructive/ Physical)
HHFDELHOU1900005279 The Legal Heir of Dheera Son Of Narayan Dutt Bhatt, Chandra Devi 07/12/2023, Rs. 6,58,899/- as on date 07/12/2023 21/10/2024 (Physical)
Description of Secured Assets/Immovable Properties: Flat No. UGF-4, Upper Ground Floor, Rear Side, Lhs. Ltg. Without Roof Rights Built On Plot No. A-1103 Consisting Of One Bedroom, One Kitchen And One Toilet Having Super Covered Area Measuring 400 Sq. Ft. Ls. 37.16 Sq. Mtrs. DLF Dishad Extension - II, Village Brahmipur Urli Bhopura, Pargana Loni, Tehsil And District Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201005 Bounded As: East: Plot No. A- 1/104, West: Plot No. A- 1/102, North: Plot No. A-1/88, South: 40 Ft wide road
HHFNSPHOU21000014004, HHFNSPIPL 21000014035 Virender Kumar, Soni Daughter Of Sushil Jha 16/04/2024, Rs. 17,17,293/- as on 15/04/2024 21/10/2024 (Physical)
Description of Secured Assets/Immovable Properties: Entire Third Floor Without Roof Rights Part Of Property Bearing Municipal No. 2154/167 (Property No. 2154, Out Of Khazra No. 213, Area Measuring 48.25 Sq. Yds. Or 40.342 Sq. Mtrs. Portion Of Old Plot No. B/118, Gali Of Khazra No. 142/3, Village- Chowkri, Mubarakabad, Ganeshpura, Tri Nagar, Delhi - 110035 Bounded by: North: Other's Plot/ Property, East: 10 Ft wide Gali, South: Other's Plot/ Property, West: Part of Property No. 2154
HHFGAZHOU21000013120, HHFGAZIPL21000013121 Santosh Kumar, Seema Wife Of Santosh Kumar 26/07/2024, Rs. 10,81,074/- as on date 22/07/2024 21/10/2024 (Symbolic)
Description of Secured Assets/Immovable Properties: Flat No. UG-4, Upper Ground Floor, Back Side Rhs. Without Roof Rights Built On Plot No. A-43, Out Of Khazra No. 213, Area Measuring 415 Sq. Ft. Ls. 38.55 Sq. Meters, Situated At Ravi Vihar Sehkari Awas Samiti Ltd. Village Sadullabad, Tehsil Loni Dist. Ghaziabad, U.p., consisting of one bedroom, one drawing/dining room, one kitchen, toilet bathroom & balcony Bounded By: North: Other's Plot, East: Plot No. A-42, South: Common passage and Flat No. UG-1, West: Flat No. UG-3
HHFLAXHOU The Legal Heirs of Gourav Son Of Pradeep Kumar, Geeta Wife Of Pradeep Kumar 10/06/2024, Rs. 17,15,611/- as on date 10/06/2024 21/10/2024 (Symbolic)
Description of Secured Assets/Immovable Properties: Flat No. FF-2, First Floor, Front Rhs, Plot No. A-58, Khazra No 347, Without Roof Rights, Ravi Vihar Sehkari Awas Samiti Ltd. Village- Sadullabad, Loni, Ghaziabad, 201102 consisting of two bedrooms, one drawing/dining room, one kitchen, toilet bathroom & balcony, Bounded By: North: 30 ft wide road, East: Front LHS Unit, Plot No. A-99, South: Rear Rhs Unit, Other plot, West: Plot No. A-97 Vacant Plot
DATE :- 23-10-2024, PLACE:- Delhi/NCR Sd/- Authorised Officer FOR HERO HOUSING FINANCE LIMITED

SRF LIMITED
Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091
Tel. No. (Regd. Office): (+91-11) 49482870 | Fax: (+91-11) 49482900 | E-mail: info@srf.com | Website: www.srf.com | CIN - L18101DL1970PLC005197
STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024 (Rs. in Crores)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE					CONSOLIDATED				
		QUARTER ENDED		HALF YEAR ENDED		YEAR ENDED	QUARTER ENDED		HALF YEAR ENDED		YEAR ENDED
		30-Sep-24	30-Sep-23	30-Sep-24	30-Sep-23	31-Mar-24	30-Sep-24	30-Sep-23	30-Sep-23	31-Mar-24	31-Mar-24
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	2703.53	2586.98	5439.83	5360.70	10786.67	3424.30	3177.36	6888.42	6515.74	13138.52
2	Profit for the period before tax	303.36	415.77	639.66	906.84	1717.88	283.66	414.81	627.64	900.58	1692.22
3	Net Profit for the period after tax	225.11	308.72	475.05	674.12	1374.03	201.42	300.78	453.64	660.07	1335.71
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	199.72	276.88	485.19	713.27	1465.04	325.54	257.68	620.60	627.16	1356.84
5	Paid up Equity Share Capital	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	10598.99	9566.96	10598.99	9566.96	10216.27	11699.87	10554.37	11699.87	10554.37	11181.58
7	Net Worth	10895.41	9863.38	10895.41	9863.38	10512.69	11996.29	10850.79	11996.29	10850.79	11478.00
8	Security Premium Account	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56
9	Debt Equity Ratio	0.35	0.34	0.35	0.34	0.35	0.44	0.46	0.44	0.46	0.44
10	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -										
	(a) Basic:	7.59	10.42	16.03	22.74	46.35	6.79	10.15	15.30	22.27	45.06
	(b) Diluted:	7.59	10.42	16.03	22.74	46.35	6.79	10.15	15.30	22.27	45.06
11	Capital Redemption Reserve	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48
12	Debt Service Coverage Ratio	2.11	3.33	2.09	3.16	3.34	1.75	2.55	1.79	2.59	2.71
13	Interest Service Coverage Ratio	5.63	6.83	5.71	7.35	7.35	4.81	5.65	5.04	6.11	6.11

NOTES:

कच्चा सूचना

जैसा कि, वित्तीय आंदोलनों के प्रतिभूतियों एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ प्रतिभूति धारा 13(2) के तहत प्रवर्तन शक्तियों के उपयोग में जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (जिसे एक जनसामान्य कंपनी के रूप में दर्ज किया गया है) के अधिकृत अधिकृतियों ने प्रस्तावित तथा अथवा वस्तुली की गयी एक प्रस्ताव को प्रस्तावित कर दिया है, अर्थात्, आर्थिक वर्षों, लागतों, प्रभावों आदि सहित सूचना को प्रवर्तन की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बन्धित नाम के समूहक उल्लिखित राशि तथा उर पर कर्तव्य सूचना में उल्लिखित दर पर प्रत्येक वर्ष एक प्रस्तावित तथा अथवा वस्तुली की जायेगी। सूचना को प्रवर्तन करके, प्रभावों आदि का प्रस्तावित करने को करते हुए कर्जदार(री), सह-कर्जदार(री) को माल सूचना जारी की जायेगी।

क्र. सं.	अग्र सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता	13(2) की सूचना तिथि/विधि तक काव्यता (रु. में)	कच्चे की तिथि/विधि तक काव्यता तथा प्रकार
1	3041824000126	1) श्री फूलि (आवेदक), 2) श्रीमती मयू (सह-आवेदक)	24.07.2024 14.07.2024 को रु. 1,51,601/- (एक लाख पचास हजार छः सौ इकसठ रुपये केवल)	तिथि: 21.10.2024 समय: 12:05 बजे अप. सांकेतिक कर्जा
प्रतिभूत आसि का विवरण : याका मीजा टाउनशिप, प्लॉट/ब्लॉक नंबर 10, क्षेत्रफल 26 वर्ग गज, तहसील और जिला फरीदाबाद, हरियाणा का पूरा अवल हिरसा। श्रीमती मयू कालिया, पत्नी श्री राजेंद्र कुमार के स्वामित्व में। सीमा: पूर्व- सरकारी रोड, पश्चिम- वैरक नंबर 10 का बचा हुआ हिस्सा, उत्तर- वैरक नंबर 10 का बचा हुआ हिस्सा, दक्षिण- रास्ता।				

जैसा कि यहां ऊपर उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता वकाया राशि का पुनर्भूतगण करने में असफल रहे, एतद्वारा विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित कर्जदार तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकृतियों ने कथित निम्नो के नियम 8 के साथ प्रतिभूत कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उर प्रवर्तन शक्तियों के उपयोग में यहां ऊपर उल्लिखित सम्बन्धित/प्रतिभूत आसिओं पर कब्जा कर लिया है। जैसा कि यहां ऊपर उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को विशेष रूप से जना जनसामान्य को एतद्वारा उपर्युक्त सम्बन्धित/प्रतिभूत आसिओं से कोई संयवहार न करने को चेतावनी दी जाती है और उपर्युक्त सम्बन्धित/प्रतिभूत आसिओं के साथ कोई संयवहार जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन रहिये।

स्थान : दिल्ली ग.स.सं. ह./- अधिकृत अधिकृतियों जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड तिथि : 23.10.2024

जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
(एक अनुसूचित वित्तीय बैंक)

पंजीकृत कार्यालय: द फेवरवे, भुतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 और 12/बी, ऑफ डोमेन, कोरमंगला इनर रिंग रोड, इंडीएल बिजनेस पार्क के बगल में, बल्लभपुर, बंगलौर-560071। शाखा कार्यालय: 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, कोरल बाग, नई दिल्ली-110005

IDBI BANK आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
एनएफसी शाखा, दिल्ली

लॉकर खोलने की सूचना

यह सूचित किया जाता है कि हमारे विभिन्न नोटिसों एवं मांगों के बाद भी हमारे एनएफसी शाखा के लॉकर धारक निम्नलिखित लॉकर के निष्कारित किराये का भुगतान नहीं कर पाए हैं। नियम एवं शर्तों के अनुसार बैंक के पास लॉकर धारक का भुगतान न करने पर उक्त लॉकर को तोड़ कर खोलने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है। तदनुसार, इन सभी कार्रवाइयों से बचने के लिए नियत तारीख से पहले लॉकरधारक संबंधित शाखाओं में आवेदन कर बकाए का भुगतान कर सकते हैं। अन्यथा सभी नियमों के साथ 22 जनवरी 2025 को लॉकर तोड़ कर खोला जाना प्रस्तावित है। लॉकर तोड़ कर खोलने का शुल्क किराएदारों द्वारा वहन किया जाएगा तथा कालिया किराया एवं अन्य खर्चों इत्यादि की वस्तुली का कानूनी अधिकार बैंक के पास सुरक्षित होगा।

क्र.सं.	लॉकर सं.	इस तारीख से देय है	नाम तथा पता
1	एस1-19	01.04.2021	इसूरीन अहमद/ अल्लाह बख्श 1-33/13 ए, केएच 325/290, बटला हाउस, ओखला, दिल्ली-110025

दिनांक: 22.10.2024 स्थान: दिल्ली

कार्यालय पर्योजना प्रबन्धक, यूनिट-26
कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज
उत्तर प्रदेश जल निगम (एनएन) (उपरोक्त संस्था का उपक्रम)

कार्यालय :- 3/14, विमान खण्ड, मोनरी नगर, लखनऊ
प्रधान कार्यालय :- टी.सी.-38-बी, विष्णु खण्ड, मोनरी नगर, लखनऊ-226002

Visit us at: www.cdspupjn.org E-mail: pmunit26@gmail.com

निविदा सूचना सं: 874/बी-10/72 दिनांक: 17.10.2024

अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

अध्य, उत्तर प्रदेश जल निगम की ओर से अधोहस्तारों द्वारा राजकीय होमोपैथिक फिक्कलवाय नई सड़क बाराबंकी का निर्माण कार्य अनुमानित लागत रु. 21.09 लाख (जोएस-टी) रफिट एवं चेंबर सेस सहित) हेतु सीएण्ड डीएएस-0 में योजित श्रेणी में भवन कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 24.10.2024 जी अंतरा 16:00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र दिनांक 18.10.2024 से दिनांक 24.10.2024 के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार की e-procurement वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> से डाउनलोड किये जा सकते हैं तथा ई-निविदा दिनांक 25.10.2024 को अपरान्त 14:00 बजे कार्यालय पर्योजना प्रबन्धक, यूनिट-26, सीएण्ड डीएएस-0300 जल निगम (नगरिय), लखनऊ में निविदा खोली जायेगी। ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.0 5000.00 + GST (18%) अतिरिक्त है।

निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट www.cdspupjn.org एवं प्रोक्वेमेंट सिटेल <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। समस्त शुद्ध पत्र (Corrigendum) <https://etender.up.nic.in> पर ही अपलोड किये जायेंगे, इनका प्रत्येक से कोई प्रकाशन नहीं किया जायेगा। निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि उक्त वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

हस्ता./- पर्योजना प्रबन्धक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक

वेडवुड आर्थिक्ल कार्यालय, 1072, आर्यावर्ध टॉवर, दूसरी मंजिल, बल्लभपुर रोड, सुंदर विहार, बल्लभपुर रोड, इंदौर।
दूरभाष-248001
सर्विस नं: 825553335

आर्किटेक्चर और ठेकेदारों का पैन्ल बनाना हेतु

अग्रणी राष्ट्रीयता बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उत्तराखंड में देहरादून क्षेत्र में कौली बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखाओं और उससे कार्यालयों में आर्किटेक्चर और ठेकेदारों (रिजिटल / इटरीटिव) / फॉर्मिशन / इलेक्ट्रिकल वर्कस और एएच कंडीशन वर्कस हेतु) के पैन्ल में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन पत्र सहित अन्य सभी विवरण हमारे कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं या बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in/tender से दिनांक 23.10.2024 से 05.11.2024 तक डाउनलोड किए जा सकते हैं। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 05.11.2024 शाम 5:00 बजे तक है। अर्थात् शुल्क (रु. 1,000/-) के बिना आवेदन या अपूर्ण/अहस्ताक्षरित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन यहां जमा किया जाना है: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देहरादून जल कार्यालय, 1072, आर्यावर्ध टॉवर, दूसरी मंजिल, बल्लभपुर, चकराता रोड, देहरादून - 248001, अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाएं।

दिनांक: 22.10.2024 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देहरादून जल कार्यालय

दिनांक 20.10.2024 को प्रकाशित विज्ञापन (अंडीजी भाग में) रद्द कर दिया गया है और आज का विज्ञापन प्रकाशन आर्किटेक्चर और ठेकेदारों का पैन्ल बनाना के लिए लागू होगा।

IDBI BANK बैंक लिमिटेड
श्रेणीय कार्यालय- बहेरू कलौली, देहरादून 248001, उत्तराखण्ड

कच्चा नोटिस
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहस्तारों वित्तीय आसिओं का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)नियम 2002 के नियम 3 के साथ प्रतिभूति धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिस दिया जाता है। बैंक ने निम्न उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटीदाताओं/ बंधककर्ता/ कानूनी वारिस को उनके नामों के सामने दर्शाया गई तारीख को मांग सूचना जारी की कि उपर्युक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर नोटिस के प्रतिभूति राशि को चुकता करे। चूंकि वे उपर्युक्त राशि को चुकता नहीं कर पाए, अतः उन्हें और आम जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्तारों ने उपर्युक्त निम्नो के नियम 8 के साथ प्रतिभूत उपर्युक्त (अधिनियम) की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रवर्तन अधिकारों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं के उसके (उनके) नाम के सामने दर्शाया गई तारीख को नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेषकर उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटीदाताओं/ बंधककर्ता/ कानूनी वारिस और सामान्य तौर पर आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे ऐसी संपत्तियों का सीधा न करें, ऐसी संपत्तियों के सीधे पर नीचे वर्णित राशि और उस पर भीयों के ब्याज व प्रभार आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होंगे। सुरक्षित सम्पत्तियों को भुनाने के लिये उपलब्ध समय के संबंध में धारा 13 की उप धारा (8) के प्राधान्यों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्र.सं.	उधारकर्ता का नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	बकाया धनराशि	डिमांड नोटिस की तिथि
01	श्री जगराम सिंह	सर्वेक्षण संख्या- 4592 वाली सम्पत्ति के सभी भाग एवं मूखण्ड जिसकी माप 0.025 हेक्टेयर है, जो ग्राम देवर खडोरा, गोपेशपुर, जिला-चमोली-246401, उत्तराखण्ड राज्य में स्थित है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व में- प्रेम सिंह की भूमि, पश्चिम में - श्री बर्खावाल की भूमि, उत्तर में- श्री हयात सिंह की भूमि, दक्षिण में- श्री हयात सिंह की भूमि। सभी इमारतों एवं ढांचों की संरचनाओं के साथ-साथ सभी प्लॉट और मशीनरी भूमि पर स्थायी रूप से स्थित है।	रु. 6,19,739.01 (छः लाख उन्नीस हजार सात सौ उन्नालीस रुपये और एक पैसा मात्र) साथ ही ऋण बंद होने तक दिनांक 10.01.2024 से खर्च व ब्याज लागू।	09.07.2024 कच्चे की तिथि 17.10.2024

दिनांक: 23.10.2024 स्थान: देहरादून प्राधिकृत अधिकारी

जना स्माल फाइनेंस बैंक
(अनुसूचित वित्तीय बैंक)

पंजीकृत कार्यालय : द फेवरवे, भुतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/बी, ऑफ डोमेन, कोरमंगला इनर रिंग रोड, इंडीएल बिजनेस पार्क के बगल में, बल्लभपुर, बंगलौर-560071

श्रेणीय शाखा कार्यालय : 16/12, 2सरा तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, कोरल बाग, दिल्ली-110005

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

जैसा कि आप नीचे वर्णित कर्जदारों, सह-कर्जदारों, जमानती तथा बंधककर्ताओं के जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से अपनी उधार सम्पत्तियों को बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया था। आप सभी के द्वारा को गयी चूक के परिणामस्वरूप कालेज ऋण खाते को री-निगमन आसिओं के रूप में वॉर्कौट कर दिया गया है, जैसा कि अधिनियम के तहत प्रवर्तन शक्तियों के उपयोग में जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने कालेज 2 में उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानती/बंधककर्ताओं से सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि तथा उस पर भावी ब्याज का पुनर्भुतगण करने को करते हुए मांग सूचना गिंत की थी, किन्तु उनमें से कुछ के पास विभिन्न कारणों से सूचनाएं सर्व नहीं हो पायीं।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता के नाम	अग्रण खाता सं. तथा अग्रण राशि	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	एनएफसी सूचना की तिथि	तिथि तक बकाया राशि रु. में
1	1) मेसर्स रिजिट विनायक एनएफए अर्थात्, इस्के मालिक श्री निव कुमार गौतम द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री निव कुमार गौतम (कर्जदार), 3) श्रीमती शैलजा निव (गारंटर)	अग्रण खाता सं. 45269660000252 45269410000039 तथा 45268640000585 रु. 98,83,478/- रु. 4,52,000/-	प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण: भाग-ए' - बंधक चल परिसंपत्तियां: कंपनी मेसर्स रिजिटविनायक एनएफए अर्थात् के व्यावसायिक परिसर अर्थात्, प्लॉट संख्या 46, 47, 48, जासुड औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर-59 के समने, सरकारी इलेक्ट्रिकल पीले, फरीदाबाद, हरियाणा-121004 के लेखा पुस्तकों में सभी कच्चे माल और स्टॉक तथा प्राण्य और पुरस्कृत ऋणों पर प्रथम प्रभार। भाग-बी: बंधक अचल संपत्ति - अनुसूची संपत्ति - संपत्ति विवरण: खसरा नं.7/8/2, 9/1 और खसरा नं.2/1-9, 11, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 20/1, 3/5, 6/1, 11, 20, 21, 22, 4/1/15, 16, 17/2, 24, 25, 6/4/4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/1/11 में से कुल 1 कनाल 10 सरसाल जल कुल रुक्या का 40/50 हिस्सा 2 कनाल 10 सरसाल प्रति नंबर 46, 47 और 48 का हिस्सा कुल क्षेत्रफल 1215 वर्ग मी में फैला यह मकान भाग मीजा जासुड, तहसील बल्लभपुर, फरीदाबाद में स्थित है। इसका स्वामित्व श्रीमती शैलजा निव, पत्नी श्री निव कुमार गौतम के पास है। इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्व- प्लॉट संख्या 48 का शेष भाग, पश्चिम- प्लॉट संख्या 46 का शेष भाग, उत्तर- रास्ता 11 फीट, दक्षिण- रास्ता 30 फीट।	01.10.2024 मांग सूचना की तिथि: 16.10.2024 तक	रु. 79,21,341/- (रुपये उनवत्ती साठ इक्कीस हजार तीस सौ इकनालीस मात्र)
2	1) मेसर्स विवाय इंडीएलएच, इस्के मालिक श्री विवाय सिंह (कर्जदार), 3) श्रीमती मंधीया सिंह (गारंटर)	अग्रण खाता सं. 45268640001128 4526200000575545 अग्रण राशि: रु. 58,63,499/- रु. 20,17,059/-	प्रतिभूत संपत्तियों का विवरण: भाग-ए' - बंधक चल संपत्ति: कंपनी मेसर्स विवाय इंडीएलएच के व्यावसायिक परिसर वाली प्लॉट संख्या 16, पानी फरीदाबाद, हरियाणा-121004 के लेखा पुस्तकों में सभी कच्चे माल और स्टॉक तथा प्राण्य और पुरस्कृत ऋणों पर प्रथम प्रभार। भाग-बी: बंधक अचल संपत्ति - अनुसूची संपत्ति - संपत्ति विवरण: प्लॉट नंबर 16 पर स्थित संपत्ति, क्षेत्रफल 726 वर्ग मी, नोएटा/खाना नंबर 17, 51, 132, मौका नंबर 115, किला नंबर 12 (7-13), किला नंबर 13(1) (2-10), किला नंबर 18 (8-0), किला 03, किला 24/8/26, 18 कनाल 03 सरसाल का हिस्सा, मौका नंबर 114, किला नंबर 16(1) (2-3) मौका नंबर 115, किला नंबर 20(2) (6-10) किला 2 कनाल 09 कनाल 11 सरसाल, तहसील बल्लभपुर, फरीदाबाद, हरियाणा-121004। इसका स्वामित्व श्री विवाय सिंह, पुत्र श्री प्रेम पाल सिंह के पास है। सीमा: पूर्व- वी 25 प्रकार की संपत्ति, पश्चिम: अन्य की संपत्ति, उत्तर: श्री संदीप ल्यामी की संपत्ति, दक्षिण: सड़क 35 फीट।	एनपीए की तिथि: 26.09.2024 मांग सूचना की तिथि: 18.10.2024	रु. 69,12,508/- (रुपये उनवत्तर साठ बाह्र हजार पांच सौ आठ मात्र) तिथि 15.10.2024 तक
3	1) श्री आनंद (आवेदक), 2) श्रीमती सोनिया (सह-आवेदक)	अग्रण खाता सं. 45129430000086 अग्रण राशि: रु. 4,59,000/-	प्रतिभूत संपत्तियों का विवरण: बंधक अचल संपत्ति: प्लॉट नंबर 29 वाली प्लॉट संपत्ति, क्षेत्रफल 29.66 वर्ग गज, खसरा नंबर 452, आवासीय कॉलोनी पूर्वी संगम विहार, इन्वेलस गंग बंधने में हाजीर, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद में स्थित है। स्वामित्व श्रीमती सोनिया, पत्नी श्री आनंद के पास है। सीमा: पूर्व- रास्ता 18 फीट चौड़ा, पश्चिम: प्लॉट नंबर 27, उत्तर: प्लॉट नंबर 28, दक्षिण: रास्ता 8 फीट चौड़ा।	एनपीए की तिथि: 01.10.2024 मांग सूचना की तिथि: 10.10.2024	रु. 3,95,710/- (रुपये तीस लाख चित्तरने हजार नव सौ रस मात्र) तिथि 14.10.2024 तक
4	1) गोहमद गारिद (आवेदक), 2) सुशी जरीना (सह-आवेदक)	अग्रण खाता सं. 30808240000100 अग्रण राशि: रु. 5,00,000/-	प्रतिभूत संपत्तियों का विवरण: बंधक अचल संपत्ति: किटा खाली प्लॉट वाली संपत्ति, 58.50 वर्ग मी, नगर पालिका भवन नंबर 251, मोहल्ला व्यापारिण, मुगल नगर, पररना जलवालाद, तहसील मोदी नगर, जिला गाजियाबाद में स्थित है। इसका स्वामित्व गोहमद गारिद, पुत्र श्री राशि के पास है। सीमा: पूर्व- अजराज का घर, पुजा 10.50 फीट, पश्चिम: रास्ता 9 फीट चौड़ा, पुजा 9 फीट, उत्तर: करम लोदी की संपत्ति, पुजा 54 फीट, दक्षिण: कौली काले की संपत्ति, पुजा 54 फीट।	एनपीए की तिथि: 01.10.2024 मांग सूचना की तिथि: 18.10.2024	रु. 4,77,845/- (रुपये चार आठ सौ चत्तरास हजार आठ सौ पचास मात्र) तिथि 16.10.2024 तक

एतद्वारा कॉलम सं. 2 में उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती तथा बंधककर्ता को सम्बन्धित कर्जदार/सह-कर्जदार के विरुद्ध कॉलम सं. 6 में प्रदर्शित सम्पूर्ण राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर करने को करते हुए यह सूचना दी जा रही है क्योंकि कथित कॉलम सं. 6 में प्रदर्शित तिथि तक सम्बन्धित ऋण खाते के सम्बन्ध में बकाया पायी गयी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक देय अन्य राशिओं सहित सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन रहिये। प्रतिभूति हित के प्रवर्तन की उचित कार्यवाही के लिए ध्यान होगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन कथित फाईनंशियल के कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानती/बंधककर्ताओं के विरुद्ध कानून के तहत जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पास उपलब्ध होने से अधिकारों तथा उपचारों के पूर्वगृहीत रहित है, आप कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, आपको प्रतिभूत लेनदार की पूर्व अनुमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूति को निलम्बित करने या संयवहार करने से प्रतिवन्धित/निमित्त किया जाता है।

ह./- अधिकृत अधिकृतियों, जने जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड तिथि : 23.10.2024 स्थान : दिल्ली ग.स.सं.

पीसी ज्वैलर लिमिटेड
निगमित पहचान संख्या: L36911DL2005PLC134929
पंजी. कार्यालय: 27/13 तीसरा तल, बैंक स्ट्रीट, कोरलबाग, नई दिल्ली-110005, फोन- 011-49714997, वेबसाइट: www.pcjeweller.com, फैक्स: 011-49714972, ई-मेल: info@pcjeweller.com

पोस्टल बैलेट की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के लागू नियमों के प्रतिभूत अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसार, कंपनी 19 अक्टूबर, 2024 की पोस्टल बैलेट सूचना (सूचना) में उल्लिखित विशेष व्यवसायों के संबंध में पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने सदस्यों को सूचित किया जा रहा है। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्राधान्यों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एनसीए) द्वारा 19 सितंबर, 2024 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 के साथ प्रतिभूत, एनपीए द्वारा इस संबंध में जारी कच्चे परिपत्रों के क्रम में और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा 3 अक्टूबर, 2024 को जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी.सीआईआर/2024/133 के अनुसार, सेबी द्वारा इस संबंध में जारी कच्चे परिपत्रों के क्रम में, केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा उन सदस्यों को नोटिस भेजा गया है, जिन्होंने ई-मेल तथा डिजिटल प्रतिभूतियां / कंपनी / एनपीए और इलेक्ट्रॉनिक एजेंट - केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिनटेक) के साथ पंजीकृत है और जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटी डिजिटल लिमिटेड / सेंट्रल डिजिटल लिमिटेड (सिडिआ) लिमिटेड से कट-ऑफ तिथि यानी 18 अक्टूबर 2024 के अनुसार प्राप्त सदस्यों के एनपीए / लाभकारी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं। कंपनी ने 22 अक्टूबर, 2024 को सूचना का प्रेषण पूरा कर लिया है। सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pcjeweller.com, बीएसई लिमिटेड और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एजेंट सिडिआ लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है और केफिनटेक की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर भी उपलब्ध है। सदस्यों को नोटिस की कोई भी कमी प्रति ई-वोटिंग के माध्यम से होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 के प्राधान्यों के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ प्रतिभूत, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करके प्रस्तुत है और व्यवसायों का संस्थान केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्य केवल ई-वोटिंग के माध्यम से ही मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग बुधवार, 23 अक्टूबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और गुरुवार, 21 नवंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी और उसके बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की प्रवर्तन इतिवृत्त शेषर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी का सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के रूप में लेना चाहिए। कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री रणधीर सिंह शर्मा, प्रेजिडेंट कंपनी सेक्रेटरी (सीपी नंबर : 3872), प्रोचाराद्वारा आर एस शर्मा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली को एक निष्पक्ष और पारदर्शी विधिपूर्वक पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संस्थान के लिए जिम्मेवारी नियुक्त किया है। जोचकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर, पोस्टल बैलेट का परिणाम ई-वोटिंग के समापन के 2 कार्यदिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा। उल्लिखित की रिपोर्ट के साथ परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.pcjeweller.com और केफिनटेक की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर भी उपलब्ध होगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के बारे में किसी भी प्रश्न या शिंकायत की स्थिति में, सदस्यगण केफिनटेक की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध ई-वोटिंग पर सहायता और प्रश्न: पूछें जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा शेषरकारकों के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या evoting@kfintech.com पर ई-मेल कर सकते हैं अथवा केफिनटेक के टोल फ्री नंबर : 1800-309-4001 पर कॉल कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार मूल पीसी ज्वैलर लिमिटेड

हस्ता./- स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 22 अक्टूबर 2024

प्रपत्र सं. 3 [विनियम-15(1)ए रेजी]/16(3)
अग्रण वस्तुली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रपत्र नं. एलसीओ-33-34-35, सेक्टर-17C, चंडीगढ़ (तृतीय एवं चतुर्थ तलों पर भी अतिरिक्त स्थल आवंटित किया गया है)

प्रकरण नं. ओए/199/2024
अग्रण वस्तुली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ प्रतिभूत अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत व्यावसायिक (एनएन) के प्रभार में: 23948

इष्टिणयन आवेदनकारी बैंक विरुद्ध जय मी टूल्स

प्रति,
(1) मेसर्स जय मी टूल्स, अपने स्वामी श्री अनिल कुमार चोपड़ा के माध्यम से निवासी- भूखण्ड सं. 20, शिव कॉलोनी, सेक्टर 22 एनआईटी फरीदाबाद हरियाणा - 121005
(2) श्री अनिल कुमार चोपड़ा पुत्र स्वर्गीय एसआई चोपड़ा, स्वामी मेसर्स जय मी टूल्स निवासी- भूखण्ड सं. 20, शिव कॉलोनी, सेक्टर 22 एनआईटी फरीदाबाद हरियाणा - 121005

व्यावसायिक आदेश (समस्त)
जबकि, ओए/199/2024, दिनांक 27/09/2024 को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष स्वीकृत किया गया था। जबकि, यह माननीय अधिकरण रु. 63,63,328.90/- के ऋणों की वस्तुली हेतु आवेदक विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर व्यावसायिक आदेश अर्थात् समस्त / सूचना निरंत करके संतुष्ट है (प्रत्येक इत्यादि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आप, अर्थात् प्रतिवादीयों को, निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि-
(1) व्यावसायिक आदेश अर्थात् समस्त प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर कारण बताएं / दिखाएं कि जिस राशि हेतु प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
(2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करें।
(3) संपत्तियों की कुकी के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक, आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का लेन-देन करने या निस्तारण करने से प्रतिवन्धित किया गया है।
(4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभूति हित रजिस्ट्रार कालिया गया है उसको और/या मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के तहत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों को विक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे।
(5) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत कतिपय परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की विक्री से प्राप्त किसी-आय के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी विक्री-आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति हित धारण करवाये जाने का विरोध रखने के पास अनुसूचित खाते में जमा करेंगे। आपको, आवेदक को एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निरन्तर के साथ, लिखित विवरण प्रस्तुत करने और 26/12/2024 को पूर्वाह्न 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपको अनुपस्थिति में नियुक्त ले लिया जाएगा। आज दिनांक 07/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत। समस्त निर्णयों प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नोट